

शहर की दीवारों पर पेंटिंग करेंगे स्कूल स्टूडेंट्स

इंदौर | बच्चों में हेल्दी, सेफ ईटिंग को लेकर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया...

Dainik Bhaskar

Dec 05, 2018, 03:31 AM IST

इंदौर | बच्चों में हेल्दी, सेफ ईटिंग को लेकर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने देशभर के स्कूली बच्चों के लिए ईट राइट क्रिएटिव चैलेंज शुरू किया है महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये कॉन्सेप्ट लाया गया है और इसके तहत स्टूडेंट्स को गांधी जी के फूड और न्यूट्रिशन से जुड़े विचारों को लेकर आगे चलना है। एफएसएसएआई के अनुसार, गांधी जी ने कहा था- असली धन तो सेहत का है, इसके आगे सोना और चांदी भी कुछ नहीं। उनके इस विचार के प्रचार प्रसार के साथ ही कुछ कॉम्पिटिशन भी कराई जाएंगी जिनमें स्टूडेंट्स अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे। पोस्टर मेकिंग और वॉल पेंटिंग कॉम्पिटिशन होगी। इसमें शामिल होने fssai.gov.in/CreativityChallenge पर लॉग इन करना होगा। नेशनल विनर्स को दिल्ली में 27 जनवरी को कैश प्राइज से सम्मानित किया जाएगा।

ऑन द स्पॉट पोस्टर मेकिंग : यह इंटरास्कूल लेवल, सिटी, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल लेवल पर होगी। तीन कैटेगरी में पहली से 12वीं तक के स्टूडेंट हिस्सा लेंगे।

ईट राइट कैम्पेन : ये कॉम्पिटिशन सिर्फ नेशनल राउंड में सिलेक्टेड बच्चों के बीच होगा। इसमें बच्चों को पब्लिक प्लेसेस की वॉल्स कलर करना होंगी। स्कूलों को म्युनिसिपल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से को-ऑर्डिनेट करके 600 वर्ग फीट की दीवार पर वॉल आर्ट तैयार करवाना है।